



राजस्थान सरकार



RSCERT Udaipur



हवामहल

कोरोना समय में बच्चों का झरोखा

17 सितम्बर 2022: शनिवार: वर्ष - 03: अंक - 22

एक बड़े राजा
जी का बेटा

आज की कविता

क्या हुआ जब एक बड़े राजा का बेटा, दो दिन से बीमार पड़ा और तीन महात्मा यह सुनकर आए? क्या वे चार दवा की पुड़िया लाये? बीमार बेटा कितने दिनों में ठीक हुआ? और ठीक होते ही उसने क्या किया? हाव भाव के साथ ये मजेदार कविता पूरी सुनने की लिए चित्र पर क्लिक करें।



3+ वर्ष के बच्चों के लिए। RSLPP

सबसे बड़ा
खज़ाना

आज की कहानी

पीटर को एक एक पुराना नक्शा मिला। यह एक खजाने का नक्शा था। पीटर उसे खोजने निकल पड़ा। शेर की मदद से उसने जंगल पार किया। ऊंट की मदद से रेगिस्तान। भेड़ का भी साथ मिला। लेकिन सामने आया एक बड़ा समुंद्र। अब इसे कैसे पार करेंगे? क्या वो खजाने तक पहुंचे? जानने के लिए चित्र पर क्लिक करें।




सबसे बड़ा खज़ाना

6+ वर्ष के बच्चों के लिए। RSCERT

एक अच्छा दिन

आज की किताब

एक अच्छे दिन लोमड़ी जंगल घुसी। भूख लगने पर एक छोटी सी गलती की वजह से लोमड़ी को अपनी प्यारी पूंछ से हाथ धोना पड़ा। और तो और कोई उसकी मदद करने को भी तैयार नहीं। क्या उसको अपनी पूंछ वापस मिल पाई? जानने के लिए किताब के चित्र पर क्लिक कर कहानी पढ़ें।



एक
अच्छा दिन

6+ वर्ष के बच्चों के लिए। Room to Read

अदृश्य मछली

आज की गतिविधि

एक बोतल में डाली हुई कागज की बनी मछली बाहर तो दिखती है लेकिन जैसे ही इस बोतल को पानी में डुबोते हैं, मछली छिप जाती है। बोतल बाहर निकालते ही फिर दिखने लगती है। है न मजेदार प्रयोग? क्यों होता है ऐसा? तो आइए आज ये मजेदार गतिविधि करना सीखते हैं। गतिविधि देखने के लिए चित्र पर क्लिक करें।




6+ वर्ष के बच्चों के लिए। Arvindgupta Toys

मच्छर जनित
रोगों से लड़ाई

टीचर्स कॉर्नर

बारिश का मौसम बीत रहा है। अब मच्छरों की आबादी बढ़ेगी और मलेरिया व डेंगू जैसे रोगों का खतरा भी। इन बीमारियों की रोकथाम और उन्मूलन की जंग एक लंबे समय से चिकित्सा विज्ञानी लड़ रहे हैं। अभी हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया के टीके मासक्यूरिक्स को मंजूरी दी है। यह बड़ी राहत की खबर है। आइए पढ़ते हैं स्रोत फीचर का यह आलेख।




शिक्षकों के लिए। Sandarbh

इन बहानों का
क्या करें?

हमारा पुस्तकालय

बहाना बनाना कोई मामूली काम नहीं। इसमें बहुत ऊर्जा, बुद्धि और रचनात्मकता लगती है। स्कूल में ऐसे बहानों की विविधता देखते बनती है। कुछ बच्चे तो बहानों के लिए अपने सपनों तक का हवाला दे डालते हैं। आइए पढ़ते हैं फैब्रिडिया विद्यालय, बासी, जिला पाली, राजस्थान के अध्यापक विष्णुकांत का ये अनुभव। पढ़ने के लिए चित्र पर क्लिक करें।



शिक्षकों के लिए। Eklavya

#सबपढ़े
#सबबढ़े

साथियों, हवामहल का 125 वाँ अंक आपके हाथों में है। खुद जुड़िये और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। बताइएगा कि यह अंक कैसा लगा?

हवामहल के सभी अंकों को प्राप्त करने के लिये यह QR कोड स्कैन करें।



आज का अंक आपको कैसा लगा? अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए सुझाव पेटिका के चित्र पर क्लिक करें।

